



# एक भारत श्रेष्ठ भारत

## Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

### 26. I like to go for a run in the morning.

<b>ASSAMESE</b>	মই ৰাতিপুৱা দৌৰি ভাল পাওঁ।	Moi ratipuwa douri bhal pao.
<b>BENGALI</b>	সকালে আমি দৌড়াতে ভালোবাসি।	Sakale ami dourote valobasi.
<b>BODO</b>	আং ফুঙাব দসে সমনি খারনো মोजां मोनो।	Ang fungao dosay somni karnw mwjang mwnw.
<b>DOGRI</b>	में बड्डुलै दौड़ लाना चाह्वां।	Men baḍaḍaalai daud laanaa chaahnaa.
<b>GUJARATI</b>	મને સવારે દોડવા જવાનું પસંદ છે.	Mane saware dodva javanu pasand chhe.
<b>HINDI</b>	मुझे सुबह के समय दौड़ना पसंद है।	Mujhe subah ke samay daudna pasand hai.
<b>KANNADA</b>	ನನಗೆ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವದ ಓಟ ಇಷ್ಟ.	Nanage belagina jaavada ota ishta.
<b>KASHMIRI</b>	به چھس صُبْحَایِ دَوْنِ پَسَنْدِ کَران۔	Bi chus subhai dawun pasand karaan.
<b>KONKANI</b>	म्हाका सकाळीं धांवपाक वचपाक आवडटा.	Mhaka sakaalim dhaanvpaak vachpaak avadttaa.
<b>MAITHILI</b>	हम सबेर में दौड़ब पसंद करैत छी।	Ham saber me daurab pasand karait chhi.
<b>MALAYALAM</b>	രാവിലെ ഓടാൻ പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.	Ravile oidaan pokaan njaan aagrahikkunnu.
<b>MANIPURI</b>	ঐ অযুক্তা চেনবা পাম্মি	Ei ayukta chenba pammi.
<b>MARATHI</b>	मला सकाळी धावायला जायला आवडते.	Malaa sakaali dhaavaayla jaayla aavadte.

<b>NEPALI</b>	म बिहान हल्का दौड लगाउन मन पराउँछु।	Ma bihaan halka daud lagauna maan pa-rauchhu.
<b>ODIA</b>	ମୁଁ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ	Mun sakalu doudibaku bhala pae.
<b>PUNJABI</b>	ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੌੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।	Mainu savere daurna pasand hai.
<b>SANSKRIT</b>	प्रातः धावनाय गमनं मे बहु रोचते।	Pratah dhavnay gamanm mai bahu rochte.
<b>SANTALI</b>	इंज दो सेताक् ददअड़ लगित् मोनेय् नंज।	In' do setak' dadad' lagit meney na'.
<b>SINDHI</b>	مان صبح جو ڏکڻ لاءِ وڃڻ پسند ڪندو آهيان.	Maan subuh jo dukhan liye vajjan pasand kando aahyan.
<b>TAMIL</b>	காலையில் ஓட்டப் பயிற்சிக்குச் செல்ல விரும்புகிறேன்.	Kalaiyil oatta payirchikkuch sella virumbukiren.
<b>TELUGU</b>	ఉదయం పరుగెత్తడం నాకు ఇష్టం.	Udayam parugettaḍam nāku iṣṭam.
<b>URDU</b>	مجھے صبح کے وقت دوڑنا پسند ہے۔	Mujhe Subh ke waqt daudna pasand hai.